



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.06.2022

**1-थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक-25.06.2022 को थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त इकबाल पुत्र नफीस निवासी ग्राम मवीमीरा थाना दौराला जनपद मेरठ को उसके निवास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त थाना सेक्टर-24, नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-74/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था।

**अभियुक्त का विवरण-**

इकबाल पुत्र नफीस निवासी ग्राम मवीमीरा थाना दौराला जनपद मेरठ

**अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0-74/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सेक्टर 24, नोएडा गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0-199/2022 धारा 411,413,414, 420, 467, 468, 471, 120बी एक्ट थाना सेक्टर 24, नोएडा, गौतमबुद्धनगर



## 2-थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 25-06-22 को थाना सेक्टर -24 पुलिस द्वारा मु0अ0स0 232/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सेक्टर 58 नोएडा के अंतर्गत गैंगस्टर एक्टर के अंतर्गत वांछित अभियुक्त 1. तालिब खान पुत्र उस्मान खान निवासी इन्द्रा कालोनी म0नं0 287 गली नं0 5 साहिबाबाद गाजियाबाद 2. अमित लालवानी पुत्र राजेन्द्र लालवानी निवासी एल -276 बी लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद को अभियुक्तों के घर से गिरफ्तार किया गया है।

### अभियुक्तों का विवरण-

1.तालिब खान पुत्र उस्मान खान निवासी इन्द्रा कालोनी म0नं0 287 गली नं0 5 साहिबाबाद गाजियाबाद

2-अमित लालवानी पुत्र राजेन्द्र लालवानी निवासी एल -276 बी लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 232/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर



**#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार जनसुनवाई करते हुये जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट के सभी थानों पर आयोजित किया गया संपूर्ण समाधान दिवस।**

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर थाना फेस-3 पर जनसुनवाई की गयी जिसमें आज 01 प्रार्थना पत्र व 03 पूर्व के लंबित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के साथ 04 आइजीआरएस के प्रार्थना पत्रों का भी निस्तारण किया गया।

दिनांक 25/06/2022 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर थाना फेस-3 पर पीडितों की समस्याओं को सुना गया जिसमें जन सुनवाई करते हुये आज प्राप्त 01 प्रार्थना पत्र तथा पूर्व के 03 प्रा0पत्रों का निस्तारण कराया गया इसके साथ 04 आइजीआरएस का भी निस्तारण कराया गया। इसी क्रम में डीसीपी नोएडा द्वारा थाना सेक्टर 49 पर आज प्राप्त 02 प्रार्थना पत्र तथा 03 आइजीआरएस के प्रा0पत्र व डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा थाना बिसरख एवं फेस-2 पर आज प्राप्त 03 प्रार्थना पत्र व 01 आइजीआरएस प्रकरण का निस्तारण कराया गया तथा डीसीपी ग्रेटर नोएडा द्वारा थाना दादरी पर जनसुनवाई की गयी 01 आइजीआरएस का निस्तारण कराया गया। कमिश्नरेट में सभी उच्च अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई की गयी एवं कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए शेष के निस्तारण हेतु

संबंधित को निर्देशित किया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में आए लोगों से जनसंवाद भी किया गया एवं उनकी सभी शिकायतों को अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु आश्वस्त किया गया।



**#साइबर सेल ग्रेटर नोएडा द्वारा आवेदक अक्षय कुमार के खाते से हुये आनलाइन फ्रॉड 53,918/- रूपये में से आवेदक के खाते मे 51,918/- रूपये रिलीज कराये गये।**

पुलिस आयुक्त जनपद गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही करते हुये साइबर फ्राड के शिकार होने वाले पीडितों के रूपये वापस कराये जा रहे है इसी क्रम में दिनांक 25.06.2022 को साइबर सेल ग्रेटर नोएडा द्वारा आवेदक अक्षय कुमार पुत्र श्री अश्वनी कुमार पाण्डे हाल निवासी सरस्वती हास्टल नालेज पार्क-3 थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर के साथ साइबर अपराधियों द्वारा आवेदक का रिश्तेदार बनकर पैसे भेजने के नाम पर कुल 53,918 रु0 की ठगी कर ली थी जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा साइबर सेल ग्रेटर नोएडा में की गयी जिसमें साइबर

सेल ग्रेटर नोएडा द्वारा तत्परता दिखाते हुये कुल 53,918 रु0 में से 51,918 रु0 की धनराशि आवेदक के खाते में वापस करायी गयी।